



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2252]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 9, 2012/कार्तिक 18, 1934

No. 2252]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 9, 2012/KARTIKA 18, 1934

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2012

का.आ. 2707(अ).—केंद्रीय सरकार सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय, की अधिसूचना सं. का.आ. 1648 (अ) तारीख 12 जुलाई, 2010 में संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना में "सारणी" के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :—

सारणी

अधिकारी का पदनाम	सार्वजनिक स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमा
(1)	(2)
1. कंपनी सचिव, नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, कोर-IV, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	पूरे भारत में फैले विभिन्न शहरों और कस्बों में नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा स्वामित्वाधीन, उसके द्वारा पट्टे पर दिए गए या पट्टे पर रखे गए कृषि भूमि सहित सभी कार्यालय, परिसर, अतिथिगृह, शोरूम, खुदरा दुकानें, गोदाम, आवासीय क्वार्टर या वासस्थान:—
2. महाप्रबंधक (कार्मिक), नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड (पश्चिमी क्षेत्र), अपोलो हाऊस, 382, एन. एम. जोशी मार्ग, चिंचपोकली, मुंबई	पूर्ववर्ती नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन (उत्तर महाराष्ट्र) लिमिटेड, और नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन (दक्षिण महाराष्ट्र) लिमिटेड, मुंबई द्वारा स्वामित्वाधीन कृषि भूमि सहित उसके द्वारा पट्टे पर दिए गए या पट्टे पर रखे गए सभी कार्यालय, परिसर, शोरूम, खुदरा दुकानें, गोदाम, आवासीय क्वार्टर या आवास, और नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन (दक्षिणी महाराष्ट्र) जो अब नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय, मुंबई के अधिकारिता के अधीन है। निम्नलिखित मिलों के साथ उनके स्वामित्वाधीन पट्टे पर या पट्टे पर रखी गई तथा उनके भीतर या उनसे बाहर दुकानों, कार्यालयों, परिसरों, खुदरा दुकानों, कार्यशालाओं, कारखानों, आवासीय क्वार्टरों, परिसरों, अर्थात्:—

महाराष्ट्र राज्य में :

(1) इंडिया युनाइटेड मिल्स नं. 1, डॉ. अम्बेडकर रोड, परेल, मुंबई-12;

(2) इंडिया युनाइटेड मिल्स नं. 2, रामभाऊ भोगले मार्ग, कलाचौकी, मुंबई-33

(1)

(2)

3. उप महानिदेशक (संपदा)
नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड
(दक्षिणी क्षेत्र), एन. टी. सी. हाऊस,
पो.बा. - 2409, 35 बी, सोमसुन्दरम मिल्स रोड,
कोयम्बटूर-641 009

- (3) इंडिया युनाइटेड मिल्स नं. 3, टी. बी. कदम मार्ग, कलाचौकी, मुंबई-33
(4) इंडिया युनाइटेड मिल्स नं. 4, टी. बी. कदम मार्ग, कलाचौकी, मुंबई-33
(5) इंडिया युनाइटेड मिल्स नं. 5, ए. जी. पवार लेन, बायकुला, मुंबई-27
(6) इंडिया युनाइटेड मिल्स, डाई वर्क्स, वी सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-28
(7) कोहिनूर मिल्स, नं. 1, 4, एम. एम. जी. एस. मार्ग, दादर, मुंबई -14
(8) कोहिनूर मिल्स, नं. 2, 4, एम. एम. जी. एस. मार्ग, दादर, मुंबई -14
(9) कोहिनूर मिल्स, नं. 3, एल. जे. रोड, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई -28
(10) टाटा मिल्स, डॉ. अम्बेडकर रोड, दादर मुंबई -14
(11) जाम मैनु. मिल्स, डॉ. अम्बेडकर रोड, लालबाग, परेल, मुंबई-12
(12) श्री सीताराम मिल्स, एन. एम. जोशी मार्ग, मुंबई-11
(13) पोद्दार मिल्स, एन. एम. जोशी मार्ग, मुंबई-11
(14) मॉडल मिल, पो. बा. नं. 302, उमरेर रोड, नागपुर-18
(15) रायबहादुर बंशीलाल अबीचन्द्र स्पि. एंड वीवि. मिल्स, पो. बा. नं. 6, हिंगनघाट-442301
(16) विदर्भ मिल्स, बेरार, अचलपुर-444805
(17) सावतराम रामप्रसाद मिल्स, तिलक रोड, अकोला-444001
(18) राय साहेब रेख चन्द गोपालदा मोहता स्पि. एंड वीवि. मिल्स, अकोला-444001
(19) अपोलो टेक्सटाइल मिल्स, एन.एम. जोशी मार्ग, मुंबई-11
(20) औरंगाबाद टेक्सटाइल मिल्स, कोतवालपुरा, औरंगाबाद
(21) भारत टेक्सटाइल मिल्स, गनपतराव कदम मार्ग, मुंबई-13
(22) बरसी टेक्सटाइल मिल्स, पो.बा. नं. 30, बरसी, शोलापुर
(23) चालीसगांव टेक्सटाइल मिल्स, चालीसगांव
(24) धुले टेक्सटाइल मिल्स, पो. बा. नं. 2, धुले
(25) दिग्विजय टेक्सटाइल मिल्स, लालबाग, मुंबई-33
(26) एल्फिंसटोन स्पिनिंग एंड विविंग मिल्स, एल्फिंसटोन रोड, मुंबई-14
(27) फिनले मिल्स, 10/11, डा. एस.एस. राव रोड, परेल, मुंबई-12
(28) जुपिटर टेक्सटाइल मिल्स, करोल रोड, परेल, मुंबई-13
(29) गोल्डमोहर मिल्स, दादा साहेब फाल्के रोड, दादर, मुंबई-14
(30) मुंबई टेक्सटाइल मिल्स, सेनापति बापट मार्ग, मुंबई-13
(31) न्यू हिन्दू टेक्सटाइल मिल्स, घोरूपदेव रोड, मुंबई-33
(32) न्यू सिटी मुंबई मैनु. मिल्स, 63, तुकाराम के. कदम पथ, मुंबई-33
(33) नांदेड टेक्सटाइल मिल्स, पो. बा. नं. 10, नांदेड
(34) पोद्दार प्रोसेसर्स, गनपतराव कदम पथ, लोअर परेल, मुंबई-13
(35) श्री मधुसूदन मिल्स, डा. अम्बेडकर रोड, मुंबई-14

पूर्ववर्ती नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और माहे) लिमिटेड, के स्वामित्वाधीन कृषि भूमि सहित उसके द्वारा पट्टे पर दिए गए या पट्टे पर रखे गए सभी कार्यालय, परिसर, शोरूम, खुदरा दुकानें, गोदाम, आवासीय क्वार्टर या आवास, भूमि और नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन (तमिलनाडु और पांडिचेरी) लिमिटेड जो अब नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, दक्षिणी क्षेत्र कार्यालय, कोयम्बटूर की अधिकारिता में आ रहे हैं, निम्नलिखित मिलों तथा उन मिलों के स्वामित्वाधीन पट्टे पर या पट्टे पर रखी गई तथा उनके भीतर या उनसे बाहर उनकी दुकानों, कार्यालयों, परिसरों, खुदरा दुकानों, कार्यशालाओं, कारखानों, आवासीय क्वार्टरों, परिसरों, अर्थात्:—

(1)

(2)

(क) आंध्र प्रदेश राज्य में

- (1) अदोनी कॉटन मिल्स, 146, अलूर रोड, अदोनी, आंध्रप्रदेश
- (2) अनंतपुर कॉटन मिल्स, ताडापत्री, अनंतपुर जिला, आंध्रप्रदेश
- (3) आजमजाही मिल्स, वारंगल, आंध्रप्रदेश
- (4) तिरुपति कॉटन मिल्स, रेनीगुंटा, आंध्रप्रदेश

(ख) कर्नाटक राज्य में

- (1) महबूब शाही गुलबर्गा मिल्स, गुलबर्गा, कर्नाटक
- (2) मिनर्वा मिल्स, मगाडी रोड, बंगलौर
- (3) मैसूर स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग मिल्स, मल्लेश्वरम, बंगलौर (कर्नाटक)
- (4) श्री येल्लमा कॉटन, वूलन एंड सिल्क मिल्स, टोलाहाऊस, देवांगीर, कर्नाटक

(ग) केरल राज्य में

- (1) अलगप्पा टैक्सटाइल (कोचीन) मिल्स, अलगप्पानगर, त्रिचूर, केरल
- (2) कन्नानोर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, कन्नानोर, केरल
- (3) केरल लक्ष्मी मिल्स, त्रिचूर, केरल
- (4) पार्वती मिल्स, क्यूडलोन केरल
- (5) विजयमोहनी मिल्स, त्रिवेन्द्रम, केरल

(घ) संघ राज्यक्षेत्र पुडुचेरी में

कन्नानोर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, माहे, पुडुचेरी

(ङ) तमिलनाडु राज्य में

- (1) कंबोडिया मिल्स, ओन्डीपुदूर, कोयम्बटूर-16, तमिलनाडु
- (2) कोयम्बटूर मुर्गन मिल्स, मेत्तूपलायम रोड, कोयम्बटूर-11, तमिलनाडु
- (3) कोयम्बटूर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, कृष्णास्वामी मुदलियर रोड, कोयम्बटूर, तमिलनाडु
- (4) कालेश्वरर मिल्स "ए" यूनिट कोयम्बटूर, तमिलनाडु
- (5) कालेश्वरर मिल्स "बी" यूनिट कलायरकोइल जिला रामनाद, तमिलनाडु
- (6) पंकजा मिल्स, पंकजा मिल्स रोड, कोयम्बटूर, तमिलनाडु
- (7) पायोनियर स्पिनर्स, रामनाथपुरम जिला, पराम्बकुडडी ताल्लुक, तमिलनाडु
- (8) सोमासुन्दरम मिल्स, 10/64, सोमासुन्दरम मिल्स रोड, कोयम्बटूर, तमिलनाडु
- (9) श्री रंगविलास गिनिंग स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, अवनाशी रोड, पेलामेडु, कोयम्बटूर-641001, तमिलनाडु

4. प्रबंधक

(वित्त और लेखा/आंतरिक लेखा/विधिक),
नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड का
उप कार्यालय, 7, जवाहर लाल नेहरू रोड,
कोलकाता-700013

पूर्ववर्ती नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन (पं. बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम) लिमिटेड, के स्वामित्वाधीन कृषि भूमि सहित उसके द्वारा पट्टे पर दिए गए या पट्टे पर रखे गए सभी कार्यालय, परिसर, शोरूम, खुदरा दुकानें, गोदाम, आवासीय क्वार्टर या आवास, जो अब नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता उप कार्यालय, की अधिकारिता के अधीन हैं, निम्नलिखित मिलों तथा उन मिलों के स्वामित्वाधीन, पट्टे पर या पट्टे पर रखी गई तथा उनके भीतर या उनसे बाहर उनकी दुकानों, कार्यालयों, परिसरों, खुदरा दुकानों, कार्यशालाओं, कारखानों, आवासीय क्वार्टरों, परिसर सहित, अर्थात्:—

(क) पश्चिम बंगाल राज्य में

(क) मिलें:

- (1) आरती कॉटन मिल्स, दासनगर, हावड़ा, पश्चिम बंगाल
- (2) लक्ष्मीनारायण कॉटन मिल, रिस्त्रा, पश्चिम बंगाल
- (3) सोदेपुर कॉटन मिल्स, सोदेपुर, पश्चिम बंगाल

(1)

(2)

(ख) प्रतिधारणाधीन किराए पर दिए गए परिसर

- (1) 7, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता- 700013
- (2) 6, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता- 700013
- (3) 9, ब्राबोर्ने रोड, कोलकाता- 700001
- (4) 8, हो-चीमिन सरनी, कोलकाता-700016
- (5) 8 बी, लाल बाजार स्ट्रीट, कोलकाता-1
- (6) 5, ओल्ड कोर्ट स्ट्रीट, कोलकाता-1
- (7) 9बी, लार्ड सिन्हा रोड, कोलकाता-19
- (8) 1ए, ग्रांट लेन, कोलकाता-700012
- (9) 38, अरमेनियन स्ट्रीट, कोलकाता-700001

(ग) कोलकाता स्थित किराए पर शोरूम

कॉलेज स्ट्रीट, चंदन नगर, गरियाहट, लेकटाउन, पार्क स्ट्रीट, टॉलीगुंज, कोलकाता

(ख) उड़ीसा राज्य में**(क) मिलें**

उड़ीसा कॉटन मिल्स, भक्तपुर, उड़ीसा

(ख) भुवनेश्वर में किराए पर शोरूम :

अंगुल, भुवनेश्वर

(ग) बिहार राज्य में**(क) मिलें**

बिहार-कोऑपरेटिव वीवर्स वीविंग मिल्स, मोकामाह, बिहार

(ख) बिहार में किराए पर शोरूम

पटना, मुजफ्फरपुर, पुर्णिया, रांची, जमशेदपुर, सासाराम, मधुबनी, पटना

(ग) स्वयं की संपत्ति शोरूम तथा मकान

पलया, मोकामाह, बिहार

(घ) असम राज्य में**(क) मिलें**

(1) एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज, असम

(2) बंगाल फाइल नं. 11

(ख) गुवाहाटी में किराए पर शोरूम

गुवाहाटी

5. उप-प्रबंधक, (वित्त),
बुरहानपुर ताप्ती मिल्स, लालबाग,
बुरहानपुर-450 331

पूर्ववर्ती नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन (मध्य प्रदेश) लिमिटेड, के स्वामित्वाधीन कृषि भूमि सहित उसके द्वारा पट्टे पर दिए गए या पट्टे पर रखे गए सभी कार्यालय, परिसर, शोरूम, खुदरा दुकानें, गोदाम, आवासीय क्वार्टर या आवास, भूमि, जो अब नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, इंदौर उप कार्यालय, के अधिकारिता के अधीन हैं, निम्नलिखित मिलों तथा उन मिलों के स्वामित्वाधीन, पट्टे पर या पट्टे पर रखी गई तथा उनके भीतर या उनसे बाहर उनकी दुकानों, कार्यालयों, परिसरों, खुदरा दुकानों, कार्यशालाओं, कारखानों, आवासीय क्वार्टरों, परिसरों, सहित अर्थात्:-

(क) मध्य प्रदेश राज्य में

- (1) बुरहानपुर ताप्ती मिल्स, लालबाग, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश
- (2) हीरा मिल्स, 1/10, हीरा मिल्स मार्ग (अगार रोड), उज्जैन, मध्य प्रदेश
- (3) इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स, 31 न्यूदेवास रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश
- (4) कल्याणमल मिल्स, 15, सिलनाथ कैम्प, इंदौर, मध्य प्रदेश
- (5) न्यू भोपाल टैक्सटाइल मिल्स, चांदबार, तहसील हजूर भोपाल, मध्य प्रदेश
- (6) स्वदेशी टैक्सटाइल मिल्स, 7, सिलनाथ कैम्प, इंदौर, मध्य प्रदेश

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य में

बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़

(1)

(2)

6. उप-महाप्रबंधक (आस्ति विक्री),
नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, कोर-4,
स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

पूर्ववर्ती नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन (उत्तर प्रदेश) लिमिटेड, के स्वामित्वाधीन कृषि भूमि सहित, उसके द्वारा पट्टे पर दिए गए या पट्टे पर रखे गए सभी कार्यालय, परिसर, शोरूम, खुदरा दुकानें, गोदाम, आवासीय क्वार्टर या आवास, जो अब नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर उप-कार्यालय, की अधिकारिता के अधीन हैं, निम्नलिखित मिलों तथा उन मिलों के स्वामित्वाधीन पट्टे पर या पट्टे पर रखी गई तथा उनके भीतर या उनसे बाहर उनकी दुकानों, कार्यालयों, परिसरों, खुदरा दुकानों, कार्यशालाओं, कारखानों, आवासीय क्वार्टरों, परिसरों सहित, अर्थात्:—

उत्तर प्रदेश राज्य में

- (1) बिजली कॉटन मिल्स, मेंडू रोड, हाथरस, उ.प्र.
- (2) लॉर्ड कृष्णा टैक्सटाइल मिल्स, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
- (3) मयूर मिल्स, 14/1, सिविल लाइन्स, कानपुर, उत्तर प्रदेश
- (4) न्यू विक्टोरिया मिल्स, 14/1, सिविल लाइन्स, कानपुर, उत्तर प्रदेश
- (5) श्री विक्रम कॉटन मिल्स, कालकटोरा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
- (6) लक्ष्मीरतन कॉटन मिल्स, कापी रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश
- (7) एथर्टन मिल्स, अनवर गंज, कानपुर, उत्तर प्रदेश
- (8) स्वदेशी कॉटन मिल्स, जूही, कानपुर, उत्तर प्रदेश
- (9) स्वदेशी कॉटन मिल्स, नैनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
- (10) स्वदेशी कॉटन मिल्स, मऊनाथभंजन, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश
- (11) रायबरेली टैक्सटाइल मिल्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली, उत्तर प्रदेश।

7. ज्येष्ठ प्रबंधक (संपदा),
नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड का
उप-कार्यालय, एन टी सी हाउस, 1791,
आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009

पूर्ववर्ती नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन (गुजरात) लिमिटेड, के स्वामित्वाधीन, कृषि भूमि सहित उसके द्वारा पट्टे पर दिए गए या पट्टे पर रखे गए सभी कार्यालय, परिसर, शोरूम, खुदरा दुकानें, गोदाम, आवासीय क्वार्टर या आवास, जो अब नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, अहमदाबाद उप-कार्यालय, के अधिकारिता के अधीन हैं, निम्नलिखित मिलों तथा उन मिलों के स्वामित्वाधीन पट्टे पर या पट्टे पर रखी गई तथा उनके भीतर या उनसे बाहर उनके कार्यालयों, परिसरों, खुदरा दुकानों, गोदामों, कार्यशालाओं, कारखानों, आवासीय क्वार्टरों, परिसरों सहित, अर्थात्:—

गुजरात राज्य में

- (1) अहमदाबाद जुपीटर टैक्सटाइल मिल्स, दूधेश्वर रोड, अहमदाबाद-380004, गुजरात
- (2) अहमदाबाद न्यू टैक्सटाइल मिल्स, रायपुर गेट के बाहर, अहमदाबाद-380022, गुजरात
- (3) हिमाद्री टैक्सटाइल मिल्स, सरसपुर गेट के बाहर, अहमदाबाद-380016, गुजरात
- (4) जहांगीर टैक्सटाइल मिल्स, दिल्ली गेट के बाहर, अहमदाबाद-380004, गुजरात
- (5) पेटलाड टैक्सटाइल मिल्स, स्टेशन रोड, पेटलाड-388450, गुजरात
- (6) महालक्ष्मी टैक्सटाइल मिल्स, वरतेज रोड, भावनगर-364001, गुजरात
- (7) न्यू मानकचौक टैक्सटाइल मिल्स ईदगढ़ चौकी के सामने, अहमदाबाद-380016, गुजरात
- (8) वीरंगम टैक्सटाइल मिल्स, फुलवाडी रोड, वीरंगम-382150, गुजरात
- (9) राजकोट टैक्सटाइल मिल्स, करणसिंहजी क्रॉस रोड, राजकोट, गुजरात
- (10) राजनगर टैक्सटाइल मिल्स नं. 1, ईदगाह चौकी के सामने, गिरधारनगर ओवर ब्रिज के निकट, अहमदाबाद-380016, गुजरात
- (11) राजनगर टैक्सटाइल मिल्स नं. 2, उत्तर गुजरात सोसाइटी के निकट, हरीपुरा, अहमदाबाद-380016, गुजरात
- (12) फाइन निटिंग मिल्स, चामुंडा ब्रिज के निकट, आसर्वा, अहमदाबाद-16, गुजरात"

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1648(अ) तारीख 12 जुलाई, 2010 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।

[फा. सं. 7/10/2009-एनटीसी]

सुजीत गुलाटी, संयुक्त सचिव

4280 GZ/12-2

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2012

S.O. 2707(E).—In exercise of the power conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby amends the Notification of the Government of India, in the Ministry of Textiles number S.O. 1648(E) dated the 12th July, 2010.

2. In the said Notification for the “Table” the following Table shall be substituted, namely :—

TABLE

“Designation of officer	Categories of public premises and local limit of jurisdiction
(1)	(2)
1 Company Secretary, National Textile Corporation Limited, Core-IV, Scope Complex, 7, Lodhi Road, New Delhi-110003	All offices, premises, guest houses, show-rooms, retail shops, godowns, residential quarters or accommodation, land including agricultural land owned, leased or held on lease by the National Textile Corporation Limited, New Delhi in various cities and towns spread all-over India :—
2 General Manager (Personnel), National Textile Corporation Limited (Western Region), Apollo House, 382, N. M. Joshi Marg, Chinchpokli, Mumbai.	All offices, premises, show rooms, retail shops, godowns, residential quarters, or accommodations, land including agricultural land owned, leased or held on lease by erstwhile National Textile Corporation (Maharashtra North) Limited and National Textile Corporation (South Maharashtra) Limited, Mumbai now under jurisdiction of National Textile Corporation Limited, Western Regional Office, Mumbai, including the following mills together with their shops, offices, premises, retail shops, workshops, factories, residential quarters, premises owned, leased or held on lease within or outside the mills premises, namely :— In the State of Maharashtra :— (1) India United Mills No. 1, Dr. Ambedkar Road, Parel, Mumbai-12; (2) India United Mills No. 2, Rambhau Bhogle Marg, Kalachowki, Mumbai-33; (3) India United Mills No.3, T.B. Kadam Marg, Kalachowki, Mumbai-33; (4) India United Mills No. 4, T.B. Kadam Marg, Kalachowki, Mumbai-33; (5) India United Mills No.5, A.G. Pawar Lane, Byculia, Mumbai-27; (6) India United Mills, Dye Works, Veer Savarkar Marg, Shivaji Park, Dadar, Mumbai-28; (7) Kohinoor Mills No.1, 4, M.M.G.S. Marg, Dadar, Mumbai-14; (8) Kohinoor Mills No.2, 4, M.M.G.S. Marg, Dadar, Mumbai-14; (9) Kohinoor Mills No.3, L.J. Road, Shivaji Park, Dadar, Mumbai-28; (10) Tata Mills, Dr. Ambedkar Road, Dadar, Mumbai-14; (11) Jam Manufacturing Mills, Dr. Ambedkar Road, Lalbaug, Parel, Mumbai-12; (12) Shree Sitaram Mills, N.M. Joshi Marg, Mumbai-11; (13) Podar Mills, N.M. Joshi Marg, Mumbai-11; (14) Model Mills, Post Box No. 302, Umrer Road, Nagpur-18; (15) Rai Bahadur Bansilal Abichand Spinning and Weaving Mills, Post Box No. 6, Hinganghat-442301; (16) Vidarbha Mills, Berar, Achalpur -444805; (17) Savatram Ramprasad Mills, Tilak Road, Akola-444001; (18) Rai Saheb Rekhchand Gopalda Mohta Spinning and Weaving Mills, Akola-444001; (19) Apollo Textile Mills, N.M. Joshi Marg, Mumbai-11;

(1)

(2)

3 Deputy General Manager (Estates)
National Textile Corporation Limited
(Southern Region), NTC House, PO Box 2409,
35-B, Somasundaram Mills Road,
Coimbatore-641009

- (20) Aurangabad Textile Mills, Kotwal Pura, Aurangabad;
- (21) Bharat Textile Mills, Ganpatrao Kadam Marg, Mumbai-13;
- (22) Barshi Textile Mills, P.B. No. 30, Barshi Sholapur;
- (23) Chalisgaon Textile Mills, Chalisgaon;
- (24) Dhule Textile Mills, P.B. No. 2, Dhule;
- (25) Digvijay Textile Mills, Lalbaug, Mumbai-33;
- (26) Elphinstone Spinning and Weaving Mills, Elphinstone Road, Mumbai-14;
- (27) Finlay Mills, 10/11, Dr. S.S. Rao Road, Parel, Mumbai-12;
- (28) Jupiter Textile Mills, Carol Road, Parel, Mumbai-13;
- (29) Gold Mohur Mills, Dadasaheb Phalke Road, Dadar, Mumbai-14;
- (30) Mumbai Textile Mills, Senapati Bapat Marg, Mumbai-13;
- (31) New Hind Textile Mills, Ghorupdeo Road, Mumbai-33;
- (32) New City of Mumbai Manufacturing Mills, 63, Tukaram K. Kadam Path, Mumbai-33;
- (33) Nanded Textile Mills, P.B. No. 10, Nanded;
- (34) Podar Processors, Ganpatrao Kadam Path, Lower Parel, Mumbai-13;
- (35) Shree Madhusudan Mills, Dr. Ambedkar Road, Mumbai-14.

All offices, premises, show rooms, retail shops, godowns, residential quarters, or accommodations, land including agricultural land owned, leased or held on lease by erstwhile National Textile Corporation (Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Mahe) Limited and National Textile Corporation (Tamil Nadu and Pondicherry) Limited now coming under jurisdiction of National Textile Corporation Limited, Southern Regional Office, Coimbatore, including the following mills together with their shops, offices, premises, retail shops, workshops, factories, residential quarters, premises owned, leased or held on lease within or outside the mills premises, namely :—

(A) In the State of Andhra Pradesh:

- (1) Adoni Cotton Mills, 146, Alur Road, Adoni, Andhra Pradesh;
- (2) Ananthapur Cotton Mills, Tadapatri, Ananthapur District, Andhra Pradesh;
- (3) Azam Jahi Mills, Warrangal, Andhra Pradesh;
- (4) Tirupathi Cotton Mills, Renigunta, Andhra Pradesh.

(B) In the State of Karnataka :

- (1) Mehboob Shahi Gulbarga Mills, Gulbarga, Karnataka;
- (2) Minerva Mills, Magdi Road, Bangalore;
- (3) Mysore Spinning and Manufacturing Mills, Malleswaram, Bangalore, Karnataka;
- (4) Sree Yellamma Cotton, Woollen and Silk Mills, Tolahouse, Davangere, Karnataka.

(C) In the State of Kerala :

- (1) Alagappa Textile (Cochin) Mills, Alagappanagar, Trichur, Kerala;
- (2) Cannanore Spinning and Weaving Mills, Cannanore, Kerala;
- (3) Kerala Lakshmi Mills, Trichur, Kerala;
- (4) Parvathi Mills, Quilon, Kerala;
- (5) Vijayamohini Mills, Trivandrum, Kerala.

4280 GI/12-3

(1)

(2)

- 4 Manager (Finance & Accounts/
Internal Audit/Legal), Sub-Office of
National Textile Corporation Limited,
7, Jawaharlal Nehru Road, Kolkata-700013.

(D) In the Union Territory of Puducherry

Cannanore Spinning and Weaving Mills, Mahe, Puducherry.

(E) In the State of Tamil Nadu :

- (1) Cambodia Mills, Ondipudur, Coimbatore-16, Tamil Nadu;
- (2) Coimbatore Murugan Mills, Mettupalayam Road, Coimbatore-11, Tamil Nadu;
- (3) Coimbatore Spinning and Weaving Mills, Krishnaswamy Mudaliar Road, Coimbatore, Tamil Nadu;
- (4) Kaleeswarar Mills "A" Unit, Coimbatore, Tamil Nadu;
- (5) Kaleeswarar Mills "B" Unit, Kalayarkoil District Ramnad, Tamil Nadu;
- (6) Pankaja Mills, Pankaja Mills Road, Coimbatore, Tamil Nadu;
- (7) Pioneer Spinners, Ramanathapuram District, Paramakudi Taluk, Tamil Nadu;
- (8) Somasundaram Mills, 10/64, Somasundaram Mills Road, Coimbatore, Tamil Nadu;
- (9) Sri Rangavilas Ginning Spinning and Weaving Mills, Avanashi Road, Peelamedu, Coimbatore-641004, Tamil Nadu.

All offices, premises, show rooms, retail shops, godowns, residential quarters, or accommodations, land including agricultural land owned, leased or held on lease by erstwhile National Textile Corporation (West Bengal, Orissa, Bihar and Assam) Limited now under jurisdiction of National Textile Corporation Limited, Sub-Office Kolkata including the following mills together with their shops, offices, premises, retail shops, workshops, factories, residential quarters, premises owned, leased or held on lease within or outside the mills premises, namely :—

(A) In the State of West Bengal :

(a) Mills :

- (1) Arati Cotton Mills, Dasnagar, Howrah, West Bengal;
- (2) Laxminarayan Cotton Mill, Rishtra, West Bengal;
- (3) Sodepur Cotton Mills, Sodepur, West Bengal.

(b) Rented Premises under retention :

- (1) 7, Jawaharlal Nehru Road, Kolkata-700013;
- (2) 6, Jawaharlal Nehru Road, Kolkata-700013;
- (3) 9, Brabourne Road, Kolkata-700001;
- (4) 8, Ho-Chimin Sarani, Kolkata-700016;
- (5) 8B, Lalbazar Street, Kolkata-1;
- (6) 5, Old Court Street, Kolkata-1;
- (7) 9B, Lard Sinha Road, Kolkata-19;
- (8) 1A, Grant Lane, Kolkata-700012;
- (9) 38, Armenian Street, Kolkata-700001.

(c) Rented Show Rooms at Kolkata :

College Street, Chandan Nagar, Gariahat, Laketown, Park-street, Tollygunj, Kolkata.

(B) In the State of Orissa :

(a) Mills :

Orissa Cotton Mills, Bhakatpur, Orissa.

(b) Rented Show Rooms at Bhubaneswar :

Angul, Bhubaneswar.

(1)

(2)

(C) In the State of Bihar :**(a) Mills :**

Bihar Co-operative Weavers Weaving Mills, Mokamah, Bihar.

(b) Rented Show Rooms in Bihar :

Patna, Muzaffarpur, Purnia, Ranchi, Jamshedpur, Sasaram, Madhubani, Patna.

(c) Show Rooms housed in own property :

Patna, Mokamah, Bihar.

(D) In the State of Assam :**(a) Mills :**

(1) Associated Industries, Assam;

(2) Bengal Fine No. II.

(b) Rented Show Room at Guwahati :

Guwahati.

- 5 Deputy Manager (Finance),
Burhanpur Tapti Mills, Lal Bagh,
Burhanpur-450331.

All offices, premises, show rooms, retail shops, godowns, residential quarters, or accommodations, land including agricultural land owned, leased or held on lease by erstwhile National Textile Corporation (Madhya Pradesh) Limited now under jurisdiction of National Textile Corporation Limited, Sub Office Indore including the following mills, together with their offices, premises, retail shops, godowns workshops, factories, residential quarters, premises owned, leased or held on lease within or outside the mills premises, namely :—

(A) In the State of Madhya Pradesh :

(1) Burhanpur Tapti Mills, Lalbag, Burhanpur, Madhya Pradesh;

(2) Hira Mills, 1/10, Hira Mills Marg (Agar Road), Ujjain, Madhya Pradesh;

(3) Indore Malwa United Mills, 31, New Dewas Road, Indore, Madhya Pradesh;

(4) Kalyanmal Mills, 15, Silnath Camp, Indore, Madhya Pradesh;

(5) New Bhopal Textile Mills, Chandbar, Tehsil Hazur, Bhopal, Madhya Pradesh;

(6) Swadeshi Textile Mills, 7, Silnath Camp, Indore, Madhya Pradesh.

(B) In the State of Chhattisgarh :

Bengal Nagpur Cotton Mills, Rajnandgaon, Chhattisgarh.

- 6 Deputy General Manager (Asset Sale),
National Textile Corporation Limited,
Core-IV, Scope Complex, 7, Lodhi Road,
New Delhi-110003.

All offices, premises, show rooms, retail shops, godowns, residential quarters or accommodations, land including agricultural land owned, leased or held on lease by erstwhile National Textile Corporation (Uttar Pradesh) Limited now under jurisdiction of National Textile Corporation Limited, Sub-Office Kanpur including the following mills, together with their offices, premises, retail shops, godowns workshops, factories, residential quarters, premises owned, leased or held on lease within or outside the mills premises, namely :—

In the State of Uttar Pradesh :—

(1) Bijli Cotton Mills, Mendu Road, Hathras, Uttar Pradesh;

(2) Lord Krishna Textile Mills, Saharanpur, Uttar Pradesh;

(3) Muir Mills, 14/1, Civil Lines, Kanpur, Uttar Pradesh;

(4) New Victoria Mills, 14/1, Civil Lines, Kanpur, Uttar Pradesh;

(5) Shri Vikram Cotton Mills, Kalkatora, Lucknow, Uttar Pradesh;

(6) Laxmirattan Cotton Mills, Kalpi Road, Kanpur, Uttar Pradesh;

(7) Atherton Mills, Anwar Ganj, Kanpur, Uttar Pradesh;

(8) Swadeshi Cotton Mills, Juri, Kanpur, Uttar Pradesh;

(9) Swadeshi Cotton Mills, Naini, Allahabad, Uttar Pradesh;

(10) Swadeshi Cotton Mills, Maunath Bhanjan, Distt. Azamgarh, Uttar Pradesh;

(11) Raebareli Textile Mills, Sultanpur Road, Raebareli, Uttar Pradesh.

(1)	(2)
7 Senior Manager (Estates), Sub-Office of National Textile Corporation Limited, NTC House, 1791, Ashram Road, Ahmedabad-380009	<p>All offices, premises, show rooms, retail shops, godowns, residential quarters, or accommodations, land including agricultural land owned, leased or held on lease by erstwhile National Textile Corporation (Gujarat) Limited now under jurisdiction of National Textile Corporation Limited, Sub Office Ahmedabad including the following mills, together with their offices, premises, retail shops, godowns workshops, factories, residential quarters, premises owned, leased or held on lease within or outside the mills premises, namely :-</p> <p>In the State of Gujarat :—</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Ahmedabad Jupiter Textile Mills, Dudheshwar Road, Ahmedabad-380004, Gujarat; (2) Ahmedabad New Textile Mills, Outside Raipur Gate, Ahmedabad-380022, Gujarat; (3) Himadari Textile Mills, Outside Saraspur Gate, Ahmedabad-380016, Gujarat; (4) Jehangir Textile Mills, Outside Delhi Gate, Ahmedabad-380004, Gujarat; (5) Petlad Textile Mills, Station Road, Petlad-388450, Gujarat; (6) Mahalaxmi Textile Mills, Vartej Road, Bhavnagar-364001, Gujarat; (7) New Manekchowk Textile Mills, Opposite Idgah Chowki, Ahmedabad-380016, Gujarat; (8) Viramgam Textile Mills, Fulwadi Road, Viramgam-382150, Gujarat; (9) Rajkot Textile Mills, Karansinhji Cross Road, Rajkot, Gujarat; (10) Rajnagar Textile Mills No.1, Opposite Idgah Chowki, Near Girdharnagar Over Bridge, Ahmedabad-380016, Gujarat; (11) Rajnagar Textile Mills No.2, Near Uttar Gujarat Society, Haripura, Ahmedabad-380016, Gujarat; (12) Fine Knitting Mills, Near Chamunda Bridge, Asarwa, Ahmedabad-16, Gujarat."

Note : The Principal Notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 1648(E) dated the 12th July, 2010.

[F. No. 7/10/2009-NTC]

SUJIT GULATI, Jt. Secy.